



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, फरवरी 9—फरवरी 15, 2014, शनिवार/माघ 20—माघ 26, 1935
No. 7] NEW DELHI, FEBRUARY 9—FEBRUARY 15, 2014, SATURDAY/MAGHA 20—MAGHA 26, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समूह डी पद भर्ती नियम, 1979 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, बहु कार्य कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु कार्य कर्मचारिवृंद	145 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार

(6)		
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
(10)	(11)	
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संचरना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	लागू नहीं होता ।	
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय	—अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (कार्मिक), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय	—सदस्य	
3. अवर सचिव (जी.एस.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय	—सदस्य	

[फा. सं. 12018/1/2010-प्रशा.-I]

पी. पी. बोस, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 9th January, 2014

G.S.R. 27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Electricity Authority, Group 'D' Posts Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to

be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Central Electricity Authority, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Electricity Authority, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff	145* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -1, (Rs.5200—20200) plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants upto age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)
<p>Note 1 : The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates</p>					

(6)

in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date of determination of the age limit shall be the last date on which the Employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation from recognized Board or equivalent.	Not applicable	Two years
Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.		

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or absorption/deputation, is to be made
(10)	(11)
Direct Recruitment—100%	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of :	Not applicable.
1. Director (Administration), Central Electricity Authority, Ministry of Power —Chairman	
2. Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority, Ministry of Power —Member	
3. Under Secretary, (General Supply), Central Electricity Authority, Ministry of Power —Member	

[F. No. A-12018/1/2010-Admn.-I]

P.P. BOSE, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि एवं सहकारिता विभाग, सवार हरकारा/तिपहिया स्कूटर चालक भर्ती नियम 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं सहकारिता विभाग (सवार हरकारा) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उक्त व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछले वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सवार हरकार	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

1. मैट्रिकुलेशन।

(7)

2. (i) जिसके पास, यथा स्थिति, स्कूटर या मोटर साईकिल या आटोरिक्षा चलाने के लिए वैद्य वाणिज्यिक चालन अनुज्ञप्ति हो;
- (ii) यथा स्थिति, स्कूटर या मोटर साईकिल या आटोरिक्षा चलाने का दो वर्ष का अनुभव रखता हो।
- (iii) यथा स्थिति, स्कूटर या मोटर साईकिल या आटोरिक्षा तंत्र का ज्ञान और यान में लघु त्रुटियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए।
- (iv) अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ने में समर्थ होना चाहिए।

वांछनीय : होम गार्ड या सिविल स्वयं सेवियों के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

टिप्पण 1 : यथा स्थिति, स्कूटर या मोटर साईकिल या आटोरिक्षा चलाने के लिए अभ्यर्थी की सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक चालन परीक्षण संचालित किया जाएगा।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा
--	---

(10)

(11)

प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन : ऐसे नियमित कर्मचारियों में से जो कृषि एवं सहकारिता विभाग में समूह 'ग' पद धारण कर रहे हैं जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार में अन्य मंत्रालयों के नियमित सवार हरकारा समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो स्तंभ 7 में उल्लिखित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संचरना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए) :-

लागू नहीं होता।

- | | |
|---|----------|
| 1. निदेशक या उप सचिव, कार्मिक प्रभाग का भार | |
| साधक | —अध्यक्ष |
| 2. अवर सचिव, साधारण प्रशासन प्रभाग का भार | |
| साधक | —सदस्य |
| 3. अवर सचिव, कार्मिक प्रभाग का भार | —सदस्य |

[फा. सं. 12018/04/2010-स्थापना-2]

के. संजयन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Agriculture and Co-operation)**

New Delhi, the 13th February, 2014

G.S.R. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture and Cooperation Despatch Rider/Three-Wheeler Scooter Driver Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Agriculture and Co-operation (Despatch Rider) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or scale of pay.—The number of the post, its classification, pay band and grade pay or scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Despatch Rider	3* (2014) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -1, Rs.5200—20200 with Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable	Not exceeding 25 years (relaxable for Departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

(6)

Note 1 : The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date of determining of the age-limit shall be the last date upto which the Employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruit	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential :	Not applicable	Two years
1. Matriculation		
2. (i) Possession of a valid commercial driving licence for driving scooter or motor cycle or auto rickshaw, as the case may be;		
(ii) Two years experience in driving scooter or motor cycle or auto rickshaw, as the case may be;		
(iii) Knowledge of scooter or motor cycle or auto rickshaw mechanism, as the case may be, and shall be able to remove minor defects in vehicle;		
(iv) ability to read English and Hindi		
Desirable :		
Three years service as Home Guard or Civil Volunteers.		
Note 1 : A driving test shall be conducted to assess the candidates' competency to drive scooter or motor cycle or auto rickshaw, as the case may be,		
Note 2 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates		

(7)

otherwise well qualified.

Note 3 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption, is to be made

(10)

(11)

Deputation or Absorption, failing which, by direct recruitment

Deputation or Absorption : From amongst the regular employees holding Group 'C' posts in the Department of Agriculture & Cooperation, failing which from regular Despatch Rider Group 'C' employees from other Ministries of the Central Government, who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at column 7.

For Ex-Servicemen : Deputation or Re-employment.

The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and possess the requisite experience and qualifications prescribed in column 7 shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation cases) :

Not applicable.

1. Director or Deputy Secretary, Incharge of Personnel Division —Chairman
2. Under Secretary, Incharge of General Administration Division —Member
3. Under Secretary, Incharge of Personnel Division —Member

[F. No. 12018/04/2010-E.-II]

K. SANJAYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि एवं सहकारिता विभाग, वरिष्ठ गेस्टेटरन आपरेटर भर्ती नियम, 1987 को, जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ गेस्टेटरन आपरेटर पद से है, और कृषि मंत्रालय (समूह 'ख' और समूह 'ग' अराजपत्रित तकनीकी पदों पर भर्ती) (संशोधन) नियम, 1982 को जहां तक उनका संबंध आपरेटर (फोटो कापी मशीन) पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गेस्टेटरन-सह-फोटो कापी मशीन आपरेटर (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं सहकारिता विभाग (गेस्टेटरन-सह-फोटो कापी मशीन आपरेटर) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गेस्टेटरन-सह-फोटोकापी मशीन आपरेटर	4* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम

(6)		
तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) कक्षा 12 पास हो।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(ii) गेस्टेटर मशीन और फोटो कापी मशीन के प्रचालन और अनुरक्षण में दो वर्ष का अनुभव हो।		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
(10)	(11)	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसे बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की नियमित सेवा है।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संचरना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
विभागीय प्रोन्नति समिति :	लागू नहीं होता।	
1. निदेशक या उप सचिव, प्रशासन का भासाधक —अध्यक्ष		
2. सेवा प्रभाग का अवर सचिव —सदस्य		
3. अवर सचिव, प्रशासन का भासाधक —सदस्य		
विभागीय पुष्टि समिति :		
1. निदेशक या उप सचिव, प्रशासन का भासाधक —अध्यक्ष		
2. सेवा प्रभाग का अवर सचिव —सदस्य		
3. अवर सचिव, प्रशासन का भासाधक —सदस्य		

New Delhi, the 13th February, 2014

G.S.R. 29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture and Cooperation, Senior Gestetner Operator Recruitment Rules, 1987, in so far as it relates to the post of Senior Gestetner Operator and Ministry of Agriculture (Recruitment to Technical Non-Gazetted Group “B” and “C” posts) (Amendment) Rules, 1982 in so far as it relates to the post of Operator (Photocopying Machine), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Gestetner-cum-Photocopier Operator (Department of Agriculture and Cooperation), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Agriculture and Co-operation (Gestetner-cum-Photocopier Operator) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications.—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gestetner-cum-Photo-copier Operator	4* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -1, Rs.5200—20200 with Grade Pay of Rs. 1900	Non-Selection	Between 18 and 25 years. Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note 1 : The Crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.					

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) Should have passed 12th Class.	Not applicable	Two years
(ii) Two years' experience in operation and upkeep of Gestetner machine and photocopying machines.		

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by Direct Recruitment.	Multi-Tasking Staff with 3 years' regular service in the grade after appointment thereto on regular basis in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 + Grade Pay of Rs. 1800 or equivalent.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee :—	Not applicable.
1. Director or Deputy Secretary, in charge of Administration	—Chairman
2. Under Secretary of Service Division	—Member
3. Under Secretary in charge of Administration	—Member
Departmental Confirmation Committee :—	
1. Director or Deputy Secretary in charge of Administration	—Chairman
2. Under Secretary of Service Division	—Member
3. Under Secretary in charge of Administration	—Member

[F. No. 12018/05/2012-E.-II]

K. SANJAYAN, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 30.—राष्ट्रपति, इस संकल्प के जारी होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि अथवा जब तक समिति पुनर्गठित नहीं हो जाती है, जो भी पहले हो, के लिए इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी के नियम और विनियम के क्रमशः नियम 23 और 39 के अंतर्गत इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी की कार्यकारी समिति और वित्त समिति का पुनर्गठन करते हैं :

इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी की कार्यकारी समिति की संरचना नियम-23 के अंतर्गत

क्रम सं.	सदस्य का नाम	स्थिति	संदर्भ नियम संख्या
1.	माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष	नियम 23(i) के अंतर्गत
2.	प्रो. डी.एन. त्रिपठी, 1055, मुठ्ठीगंज, कालीवाड़ी लेन, इलाहाबाद	सदस्य	नियम 23(ii) के अंतर्गत
	डॉ (श्रीमती) विधूला जायसवाल, पी-6, न्यू मेडिकल एन्क्लेव, बीएचयू, वाराणसी-221005	सदस्य	नियम 23(ii) के अंतर्गत
3.	संयुक्त सचिव (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय	पदेन सदस्य	नियम 23(iii) के अंतर्गत
4.	वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	पदेन सदस्य	नियम 23(iv) के अंतर्गत
5.	निदेशक, संग्रहालय, उत्तर प्रदेश सरकार, बनारसी बाग, लखनऊ	पदेन सदस्य	नियम 23(v) के अंतर्गत
6.	निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय	सदस्य सचिव	नियम 23(vi) के अंतर्गत

इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी की वित्त समिति की संरचना नियम-39 के अंतर्गत

क्रम सं.	सदस्य का नाम	स्थिति	संदर्भ नियम संख्या
1.	वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	अध्यक्ष	नियम 39(i) के अंतर्गत
2.	निदेशक/उप-सचिव (संग्रहालय) संस्कृति मंत्रालय	सदस्य	नियम 39(ii) के अंतर्गत
3.	प्रो. शबाहत हुसैन, 4/465, शराफत लॉज, (अकबर मार्केट के समीप), सिविल लाइन्स, अलीगढ़-202002	सदस्य	नियम 39(iii) के अंतर्गत
	संयुक्त निदेशक, ट्रेजरी व पेंशन, इलाहाबाद प्रभाग, इलाहाबाद	सदस्य	नियम 39(iii) के अंतर्गत
4.	निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय	सदस्य सचिव	नियम 39(iv) के अंतर्गत

[फा. सं. 9-7/2012-एम-I]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF CULTURE

RESOLUTION

New Delhi, the 9th January, 2014

G.S.R. 30.—The President is pleased to re-constitute the Executive Committee and Finance Committee of Allahabad Museum Society under Rules 23 and 39 respectively of Rules and Regulations of Allahabad Museum Society for a period

of five years with effect from the date of issue of the Resolution or till the Committees are reconstituted, whichever is earlier :—

COMPOSITION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF ALLAHABAD MUSEUM SOCIETY

Under Rule-23

Sl. No.	Name of the Member	Status	Reference Rule No.
1.	Hon'ble Governor, Uttar Pradesh	Chairman	Under Rule 23(i)
2.	Prof. D.N. Tripathi, 1055, Mutthiganj, Kalivadi Lane, Allahabad	Member	Under Rule 23(ii)
	Dr. (Mrs.) Vidhula Jaiswal, P-6, New Medical Enclave, BHU, Varanasi-221005	Member	Under Rule 23(ii)
3.	Joint Secretary (Museums), Ministry of Culture	Ex-officio Member	Under Rule 23(iii)
4.	Financial Advisor, Ministry of Culture	Ex-officio Member	Under Rule 23(iv)
5.	Director of Museums, U.P. Government, Banarsi Bagh, Lucknow	Ex-officio Member	Under Rule 23(v)
6.	Director, Allahabad Museum	Member Secretary	Under Rule 23(vi)

COMPOSITION OF THE FINANCE COMMITTEE OF ALLAHABAD MUSEUM SOCIETY

Under Rule-39

Sl. No.	Name of the Member	Status	Reference Rule No.
1.	Financial Advisor, Ministry of Culture	Chairman	Under Rule 39(i)
2.	Director/Deputy Secretary (Museums), Ministry of Culture	Member	Under Rule 39(ii)
3.	Prof. Shababat Hussain, 4/465, Sharafat Lodge, (Near Akbar Market), Civil Lines, Aligarh-202002	Member	Under Rule 39(iii)
	Joint Director, Treasury & Pension, Allahabad Division, Allahabad	Member	Under Rule 39(iii)
4.	Director, Allahabad Museum	Member Secretary	Under Rule 39(iv)

[F. No. 9-7/2012-M-I]

SANJAY KUMAR, Under Secy.